

## बिहार में जनसँख्या वितरण

### Distribution of Population in Bihar

बोलेन्द्र कुमार अगम,  
सहायक प्राध्यापक, भूगोल

बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां दो संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पहला उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तथा दूसरा बहुत बड़ी आबादी। जिस प्रकार यहां के उपजाऊ मिट्टी में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं उसी प्रकार यहां की जनसंख्या भी निम्न साक्षर, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च वृद्धि दर, कृषि पर निर्भरता, ज्यादातर ग्रामीण आबादी आदि समस्याओं से जूझ रही है। यदि इस जनसंख्या को प्राथमिकता के तौर पर विकसित किया जाए तो यह मानव संसाधन साबित होगी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 10,38,04,637 है जोकि पूरे देश की जनसंख्या का 8.58% है। हालांकि बिहार का क्षेत्रफल पूरे देश का 2.86% ही है। आबादी के हिसाब से यह भारत का तीसरा बड़ा राज्य है लेकिन जनसंख्या घनत्व में प्रथम स्थान रखता है।

बिहार राज्य को भूमि की सतह और कृषि संसाधन आधारित जनसंख्या की एकरूपता के लिए जाना जाता है और आबादी का बहुत कम असमान वितरण इस राज्य में पाया जाता है। लेकिन राज्य के सभी क्षेत्रों में जनसंख्या के वितरण और इससे जुड़ी विशेषताओं के कारण एकरूपता नहीं है क्योंकि कुछ भौतिक परिस्थितियाँ जैसे उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र, चौर, दलदली भूमि, दियारा भूमि, छोटे पहाड़ी क्षेत्र और कुछ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ जैसे सड़कें व रेलमार्ग आदि का विकास, धार्मिक महत्व आदि के केंद्र अपेक्षाकृत कम अनुकूल परिस्थितियों वाले क्षेत्रों की तुलना में लोगों की अधिक सघनता वाले क्षेत्र हैं। उत्तर बिहार की नदियाँ, जो कम नुकसानदायक बाढ़ का कारण बनती हैं और इस क्षेत्र में उपजाऊ मिट्टी को वितरित करती हैं जैसे कि कमला, सुग्रावे, छोटी बागमती, घाघरा आदि घनी आबादी के केंद्र हैं। इसी तरह दक्षिण बिहार की नदियाँ भी कृषि लाभ के कारण अधिक जनसँख्या को आकर्षित की हुई हैं। यह ध्यान लायक है कि विभिन्न सामाजिक समूहों और धार्मिक विश्वासों से संबंधित लोगों के वितरण में स्थानिक भिन्नता है। सामाजिक रूप से जागरूक लोगों जैसे ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार आदि विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों की सघनता में बहुत अधिक भिन्नता है। कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मण या राजपूत, भूमिहार जाति के लोगों की अधिक सघनता है। इसी प्रकार इस्लामी आस्था या सिख धर्म या अन्य धार्मिक समूह का अनुपात भी असमान रूप से वितरित है।

विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की भूमि और जनसंख्या के विश्लेषण से जनसंख्या का असमान वितरण भी स्पष्ट हो जाता है। विभिन्न जिलों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के प्रतिशत का विश्लेषण करने पर कुछ जिले ऐसे हैं जिनके क्षेत्रफल की तुलना में अधिक आबादी है। इसी तरह कुछ जिले ऐसे हैं जिनकी आबादी का प्रतिशत कम है। साथ ही कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनके क्षेत्रफल और आबादी में लगभग बराबर हिस्सेदारी है। निम्नलिखित तालिका के विश्लेषण से भूमि की प्रतिशतता और प्रत्येक जिले की जनसंख्या का पता चलता है।

S. No.	District	Area	% of Total area	Population 2011	% of total population of Bihar
1.	Patna	3202	3.40	5,772,804	5.56
2.	Pu. Champaran	3968	4.21	5,082,868	4.90
3.	Muzaffarpur	3172	3.37	4,778,610	4.60
4.	Madhubani	3501	3.72	4,476,044	4.31
5.	Gaya	4976	5.28	4,379,383	4.22
6.	Samastipur	2304	3.08	4,254,782	4.10
7.	Saran	2641	2.81	3,943,098	3.80
8.	Pa. Champaran	5228	5.55	3,922,780	3.78
9.	Darbhanga	2279	2.42	3,921,971	3.78
10.	Vaishali	2036	2.16	3,495,249	3.37
11.	Sitamarhi	2294	2.44	3,419,622	3.29
12.	Siwan	2219	2.36	3,318,176	3.20
13.	Purnia	3229	3.43	3,273,127	3.15
14.	Katihar	3057	3.25	3,068,149	2.96
15.	Bhagalpur	2569	2.73	3,032,226	2.92
16.	Rohtas	3881	4.12	3,962,593	2.85
17.	Begusarai	1918	2.04	2,954,367	2.85
18.	Nalanda	2355	2.51	2,872,523	2.77
19.	Araria	2830	3.01	3,806,200	2.70
20.	Bhojpur	2395	2.54	2,720,155	2.62
21.	Gopalganj	2033	2.16	2,558,037	2.46
22.	Aurangabad	3305	3.51	2,511,243	2.42
23.	Supaul	2425	2.58	2,228,397	2.15
24.	Nawada	2494	2.65	2,216,653	2.14
25.	Banka	3020	3.21	2,029,339	1.95
26.	Madhepura	1788	1.90	1,994,618	1.92
27.	Saharsa	1687	1.79	1,897,102	1.83
28.	Jamui	3098	3.29	1,756,078	1.69
29.	Buxar	1703	1.81	1,707,643	1.65
30.	Kishanganj	1884	2.00	1,690,948	1.63
31.	Khagaria	1486	1.58	1,657,599	1.60
32.	Kaimur (Bhabua)	3332	3.54	1,626,900	1.57
33.	Munger	1419	1.50	1,359,054	1.31
34.	Jehanabad	932	0.98	1,124,176	1.08
35.	Lakhisarai	1228	1.30	1,000,717	0.96
36.	Arwal	637	0.67	699,563	0.67
37.	Sheohar	349	0.37	656,916	0.63
38.	Sheikhpura	689	0.73	634,927	0.61
	Bihar	94163	100.00	103,804,637	100.00

Source : Provisional Population Totals, 2011 of Bihar

- सन्दर्भ: बिहार: लैंड, पीपुल एंड इकॉनमी, लुसेंट बिहार, विभिन्न प्रतियोगी पुस्तकें एवं इन्टरनेट